

## प्रेस नोट थाना पिपराईच दिनांक 08-01-2021

अन्तर्राज्यीय 04 शातिर वाहन चोर, चोरी के वाहन (अनुमानित कीमत 70 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में जनपद में घटित घटनाओं में गिरफ्तारी एवम बरामदगी हेतु पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में व पुलिस अधीक्षक अपराध पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के कुशल नेतृत्व मे पिपराइच पुलिस टीम को लगाया गया था । दिनांक 08.01.2021 को थानाध्यक्ष दिनेश कुमार मिश्र, स्वाट टीम गोरखपुर के साथ तलाश वाँछित अपराधी व संदिग्ध व्यक्ति के क्षेत्र में मामूर था कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली अपराधियों का एक गिरोह जो गाड़ियों की चोरी करके उन गाड़ियों को पेन्ट से रंगवाकर उसके रूप बदल कर खरीदते एवं बेचते हैं तथा इस्तेमाल भी करते है । इस गैंग में कुछ बिहार के भी अपराधी हैं जिनके मिली भगत से यह गिरोह इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, यह अपराधी इस समय कोनी में पेट्रोल टंकी के पास मौजूद हैं जिनके पास चोरी की हुई कुछ गाड़ियाँ ट्रक तथा बोलेरो हैं। चोरी के ट्रकों को पेंट करवाकर उसका रूप भी बदल दिये हैं तथा उन गाड़ियों को बेचने हेतु किसी से मोबाइल पर बात कर रहे थे शायद उनके इन्तजार में वहीं पर वह सब मौजूद है। यह सब चोर यू0पी0 की गाड़ी बिहार में तथा बिहार की गाड़ी यू0पी0 में बेचने खरीदने का धन्धा करते हैं तथा उनमें से कुछ गाड़ियों को खुद भी चलने के लिए रखते है मुखबिर की बातों पर विश्वास कर, मुतमईन होने पर हमराह फोर्स को तथा स्वाट टीम के मौजूद अधिकारी/कर्मचारीगण को अवगत कराते हुए मय फोर्स तथा मय मुखबिर खास को लेकर कोनी में पेट्रोल पम्प पर पहुंचकर एकबारगी दबिश देकर वाहनो में बैठे चार व्यक्तियो तथा दो अदद चोरी का ट्रक व दो अदद बोलेरो व घटना में प्रयुक्त एक अदद मारूती सुजकी अल्टो कार इनके कब्जे से बरामद हुआ (अनुमानित कीमत 70 लाख रूपये)। पकडे गये व्यक्तियों का नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम जितेश कुमार उपाध्याय पुत्र गिरीश मुनि उपाध्याय नि0 ग्राम बेलवा बुजुर्ग थाना अहिरौली बाजार जिला कुशीनगर उम्र करीब 30 वर्ष तथा दूसरे ने अपना नाम राजन गौंड पुत्र फकीर गौंड निवासी ग्राम बरसैना नं0 2 थाना अहिरौली बाजार जिला कुशीनगर उम्र करीब 22 वर्ष तथा तीसरे ने अपना नाम अरविन्द कुमार मल्ल पुत्र हरेन्द्र मल्ल निवासी ग्राम बरसैना नं0 2 थाना अहिरौली बाजार जिला कुशीनगर उम्र करीब 19 वर्ष, तथा चौथे ने अपना नाम रमेश पुत्र जयन्ती प्रसाद निवासी केवटली थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर उम्र करीब 24 वर्ष बता रहें है,बरामदगी के आधार पर थाना पिपराईच पर मु0अ0सं0 05/2021 धारा41/411/413/414/467/468/471 भा0द0वि0 पंजीकृत कर अभियुक्तो को जेल भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम पता-

- 1.जितेश कुमार उपाध्याय पुत्र गिरीश मुनि उपाध्याय निग्राम बेलवा बुजुर्ग थाना अहिरौली बाजार ,जिला कुशीनगर
2. राजन गौंड पुत्र फकीर गौंड निवासी ग्राम बरसैना नं0 2 थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
- 3.अरविन्द कुमार मल्ल पुत्र हरेन्द्र मल्ल निवासी ग्राम बरसैना नं0 2 थाना अहिरौली बाजार जिला कुशीनगर
4. रमेश पुत्र जयन्ती प्रसाद निवासी केवटली थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर

### गिरफ्तारी का दिनांक , समय व स्थान

08.01.2021 समय 05.10 बजे ,बहद कोनी तिराहा पेट्रोल पम्प के पास

### बरामदगी -

1. दो अदद चोरी का ट्रक (एक 18 चक्का व एक 12 चक्का)
2. दो अदद बोलेरो
3. घटना में प्रयुक्त एक अदद मारुती सुजकी अल्टो कार नं0 यू0पी0 57 जेड 2706

### गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का नाम-

1. थानाध्यक्ष दिनेश कुमार मिश्र -थाना पिपराईच,गोरखपुर
2. उ0नि0 श्री सादिक परवेज, - स्वाट टीम गोरखपुर
3. उ0नि0 श्री चन्द्रभान, - स्वाट टीम गोरखपुर
4. उ0नि0 पवन कुमार प्रधान, -थाना पिपराईच,गोरखपुर
5. उ0नि0 हरेराम सिंह यादव, -थाना पिपराईच,गोरखपुर
6. उ0नि0 श्री उदय शंकर द्विवेदी, -थाना पिपराईच,गोरखपुर
7. उ0नि0 अनित कुमार राय, -थाना पिपराईच,गोरखपुर
8. का0 सिद्धार्थ पंकज, -थाना पिपराईच,गोरखपुर
9. का0 सतेन्द्र यादव -थाना पिपराईच,गोरखपुर
10. हे0का0 शशिकान्त, - स्वाट टीम गोरखपुर
11. हे0का0 प्रदीप राय, - स्वाट टीम गोरखपुर
12. हे0का0 राशिद खान, - स्वाट टीम गोरखपुर
- 13.हे0का0 दिपेन्द्र मल्ल, - स्वाट टीम गोरखपुर
- 14-हे0का0 धीरेन्द्र सिंह, - स्वाट टीम गोरखपुर
- 15-का0 धर्मेन्द्र तिवारी, - स्वाट टीम गोरखपुर
- 16.का0 कुतुबुद्दीन, - स्वाट टीम गोरखपुर

17.का0 राकेश यादव, - स्वाट टीम गोरखपुर

18. का0 अरूण यादव- सर्विलांस सेल